

डाक निदेशक एवं युवा साहित्यकार कृष्ण कुमार यादव को मिलेगा 'दुष्यंत कुमार सम्मान'



प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 'आगमन' द्वारा युवा लेखक व साहित्यकार एवं राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव को 29 नवम्बर को नोएडा में आयोजित आगमन वार्षिक सम्मान समारोह में 'दुष्यंत कुमार सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। श्री यादव को उक्त सम्मान पिछले साल ही दिया जाना था, पर किन्हीं कारणोंवश वे समारोह में नहीं आ सके थे, अतः इस वर्ष उक्त सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मशहूर शायर मुनव्वर राणा, अध्यक्ष पद्मश्री गुलजार देहलवी और विशिष्ट अतिथि डा. कुँवर बेचैन द्वारा उन्हें दिया जाएगा। उक्त जानकारी संस्था के संस्थापक श्री पवन जैन ने दी।

गौरतलब है कि सरकारी सेवा में उच्च पदस्थ अधिकारी होने के साथ-साथ साहित्य, लेखन और ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी चर्चित श्री यादव की अब तक कुल 7 पुस्तकें 'अभिलाषा' (काव्य-संग्रह, 2005) 'अभिव्यक्तियों के बहाने' व 'अनुभूतियाँ और विमर्श' (निबंध-संग्रह, 2006 व 2007), 'इण्डिया पोस्ट : 150 ग्लोरियस ईयर्स' (2006), 'क्रांति-यज्ञ : 1857-1947 की गाथा' (संपादित, 2007), 'जंगल में क्रिकेट' (बाल-गीत संग्रह-2012) एवं '16 आने 16 लोग'(निबंध-संग्रह, 2014) प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके व्यक्तित्व-कृतित्व पर एक पुस्तक "बढ़ते चरण शिखर की ओर : कृष्ण कुमार यादव" (सं. डॉ. दुर्गाचरण मिश्र, 2009) भी प्रकाशित हो चुकी है। श्री यादव देश-विदेश से प्रकाशित तमाम पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर भी प्रमुखता से प्रकाशित होते रहते हैं।

कृष्ण कुमार यादव को इससे पूर्व उ.प्र. के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा "अवध सम्मान", पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा "साहित्य सम्मान", छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त द्वारा "विज्ञान परिषद शताब्दी सम्मान", अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर्स सम्मेलन, भूटान में "परिकल्पना सार्क शिखर सम्मान", "दशक के श्रेष्ठ हिन्दी ब्लॉगर दम्पति" सम्मान, विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठ, भागलपुर, बिहार द्वारा डॉक्टरेट (विद्यावाचस्पति) की मानद उपाधि, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा "डॉ. अम्बेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान", साहित्य मंडल, श्रीनाथद्वारा, राजस्थान द्वारा "हिंदी भाषा भूषण", वैदिक क्रांति परिषद, देहरादून द्वारा "श्रीमती सरस्वती सिंहजी सम्मान", भारतीय बाल कल्याण संस्थान द्वारा "प्यारे मोहन स्मृति सम्मान", ग्वालियर साहित्य एवं कला परिषद द्वारा "महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' सम्मान", राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद द्वारा "भारती रत्न", अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनन्दन समिति मथुरा द्वारा "महाकवि शेक्सपियर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान", भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा "पं० बाल कृष्ण पाण्डेय पत्रकारिता सम्मान", सहित विभिन्न

प्रतिष्ठित सामाजिक-साहित्यिक संस्थाओं द्वारा विशिष्ट कृतित्व, रचनाधर्मिता और प्रशासन के साथ-साथ सतत् साहित्य सृजनशीलता हेतु शताधिक सम्मान और मानद उपाधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।